

## देवरिया : छापेमारी में कई घरों से मिला सैकड़ों ड्रम नकली डीजल और पेट्रोल

गोरखपुर के पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन ने देवरिया जिला प्रशासन को पत्र लिखा था कि डिपो से तेल लेकर बाहर निकलने वाले टैंकरों से चौराहे पर तेल की चोरी की जाती है। इसी के बाद बुधवार को प्रशासन ने यह छापेमारी की।

नवभारत टाइम्स | Updated: 20 Jun 2019, 12:02:00 PM IST

Hindi News

Samachar

UP News

Gorakhpur News

Spurious Diesel And Petrol Seized In Deoria



प्रतीकात्मक चित्र

### देवरिया

जिला प्रशासन ने बुधवार को बैतालपुर तेल डिपो के पास स्थित अवैध डीजल-पेट्रोल कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 6 घरों से सैकड़ों ड्रम अवैध डीजल-पेट्रोल बरामद हुआ। इसी के साथ [नकली तेल बनाने का केमिकल](#) समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया।

करीब 15 दिन पहले गोरखपुर के पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन ने देवरिया जिला प्रशासन को पत्र लिखा था कि डिपो से तेल लेकर बाहर निकलने वाले टैंकरों से चौराहे पर तेल की चोरी की जाती है। इससे पंप मालिकों का नुकसान हो रहा है। इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा और सीओ वरुण मिश्र के नेतृत्व में सुबह लगभग 11 बजे छापेमारी शुरू की।

### महिलाओं ने डीजल व पेट्रोल नाली में बहा दिया

अचानक हुई छापेमारी से सकते में आई कई आरोपितों के घरों की महिलाओं ने डीजल व पेट्रोल नाली में बहा दिया। इस दौरान एक मकान से दो सौ लीटर के 40 ड्रम तेल, टुल्लू पंप पाइप एवं नकली तेल बनाने का सैकड़ों लीटर केमिकल बरामद हुआ। डिपो के अगल-बगल के 6 मकानों से कई ड्रम तेल एवं नकली तेल बनाने का केमिकल समेत अन्य उपकरण बरामद हुआ। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नकली तेल के धंधे में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/gorakhpur/spurious-diesel-and-petrol-seized-in-deoria/articleshow/69870599.cms>